



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

22 माघ 1932 (श0)  
(सं0 पटना 36) पटना, शुक्रवार, 11 फरवरी 2011

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

अधिसूचनाएं  
19 जनवरी 2011

जी0 एस0 आर0 1, दिनांक 11 फरवरी 2011—भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग) के प्रकाशित आदेश का0 आ0 संख्या 3060(अ), दिनांक 30 दिसम्बर, 2010 से निर्गत विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से (अनुज्ञापन सम्बन्धी अपेक्षाएँ, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन) हटाना (संशोधन) आदेश, 2010 के साथ पठित आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 (1955 का अधिनियम-10) की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार की पूर्व सहमति से बिहार राज्यपाल के आदेश से विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से (अनुज्ञापन सम्बन्धी अपेक्षाएँ, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन) हटाना आदेश 2002 में क्रय, संचलन, विक्रय, प्रदाय, वितरण या विक्रय के लिए भंडारण के बावत प्रयुक्त शब्दों और पदों को वस्तु अर्थात् चीनी को 31 मार्च, 2011 तक की अवधि के लिए प्रास्थगन में रखा जाएगा ।

2. विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक 2354, दिनांक 15 जुलाई 2003 द्वारा बिहार व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञा-पत्र एकीकरण) आदेश 1984 की अनुसूची 1 से 'चीनी' को विलोपित किये जाने संबंधी आदेश को भी 31 मार्च 2011 तक के लिए प्रास्थगन में रखा जाएगा ।

3. चीनी के थोक एवं खुदरा व्यापार की अनुज्ञप्ति के संबंध में बिहार व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञा-पत्र एकीकरण) आदेश 1984 के प्रावधान लागू रहेंगे ।

4. विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक 6968, दिनांक 6 दिसम्बर 2010 द्वारा निर्गत आदेश को दिनांक 31 मार्च 2011 तक के लिए विस्तारित किया जाता है ।

5. तत्सम्बन्धी निर्गत पूर्व अधिसूचनाएँ/आदेश को इस हद तक संशोधित समझा जाय ।

6. यह अधिसूचना तत्कालिक प्रभाव से लागू होगी ।

(प्र04/आ-01/09(खंड-I)-341),  
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
बैद्यनाथ प्रसाद,  
सरकार के अपर सचिव ।

*The 19th January 2011*

G.S.R. 1, dated 11th January 2011—In exercise of the powers conferred by section-3 of the Essential Commodities Act 1955 (Central Act 10 of 1955) read with the order of the Government of India in the ministry of Consumer Affair, Food and Public Distribution published under order No. 3060(E) dated 30th December, 2010 and in view of Removal of (Licensing Requirements, Stock Limit and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs (Amendment) order, 2010 with prior concurrence of Government of India, in the words and expressions used in respect of purchase, movement, sale, supply, distribution or storage for sale in the Removal of (Licensing Requirements Stock Limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs order, 2002 shall be kept in abeyance for commodities, namely, Sugar for a further period up to 31st March, 2011, from the date of commencement of this order.

2. The deletion of Sugar from schedule -1, in Bihar Trade Article (Licences Unification) order-1984 vide departmental notification no. 2354, dated 15<sup>th</sup> July, 2003 shall be kept in abeyance upto 31st March, 2011.

3. The provisions of Bihar Trade Articles (Licensing Unification) order 1984 shall remain applicable in respect of wholesale and Retail dealer of Sugar.

4. The validity of the departmental notification issued vide memo no. 6968 dated 6th December 2010 is extended upto 31st March, 2011.

5. Previously issued corresponding notifications/orders shall deem to be amended upto this extent.

6. This notification shall come into force at once.

(No. Pra/04-aa-01/09-Part-I)-341),

By order of the Governor of Bihar,

BAIDYANATH PRASAD,

*Additional Secretary to the Government.*

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 36-571+200-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>